

Roll No.

Question Booklet Number

O. M. R. Serial No.

--	--	--	--	--	--	--	--

B. Com. (Part I) (Second Semester)

EXAMINATION, 2021-22

FINANCIAL ACCOUNTING

Paper Code

C	0	1	0	2	0	2	T
---	---	---	---	---	---	---	---

Questions Booklet
Series

B

Time : 1½ Hours]

[Maximum Marks : 100

Instructions to the Examinee :

1. Do not open the booklet unless you are asked to do so.
2. The booklet contains 100 questions. Examinee is required to answer any 75 questions in the OMR Answer-Sheet provided and not in the question booklet. If more than 75 questions are attempted by student, then the first attempted 75 questions will be considered for evaluation. All questions carry equal marks.
3. Examine the Booklet and the OMR Answer-Sheet very carefully before you proceed. Faulty question booklet due to missing or duplicate pages/questions or having any other discrepancy should be got immediately replaced.

परीक्षार्थियों के लिए निर्देश :

1. प्रश्न-पुस्तिका को तब तक न खोलें जब तक आपसे कहा न जाए।
2. प्रश्न-पुस्तिका में 100 प्रश्न हैं। परीक्षार्थी को किन्हीं 75 प्रश्नों को केवल दी गई OMR आन्सर-शीट पर ही हल करना है, प्रश्न-पुस्तिका पर नहीं। यदि छात्र द्वारा 75 से अधिक प्रश्नों को हल किया जाता है तो प्रारम्भिक हल किये हुए 75 उत्तरों को ही मूल्यांकन हेतु सम्मिलित किया जाएगा। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।
3. प्रश्नों के उत्तर अंकित करने से पूर्व प्रश्न-पुस्तिका तथा OMR आन्सर-शीट को सावधानीपूर्वक देख लें। दोषपूर्ण प्रश्न-पुस्तिका जिसमें कुछ भाग छपने से छूट गए हों या प्रश्न एक से अधिक बार छप गए हों या उसमें किसी अन्य प्रकार की कमी हो, तो उसे तुरन्त बदल लें।

(Remaining instructions on the last page)

(शेष निर्देश अन्तिम पृष्ठ पर)

(Only for Rough Work)

- | | |
|---|---|
| <p>1. लघुकार्य-राशि को वसूल करने का पट्टेदार का अधिकार सदैव सम्बन्धित होता है :</p> <p>(A) प्रथम दो वर्ष से</p> <p>(B) अगले तीन वर्ष से</p> <p>(C) अनुबन्ध की शर्तों से</p> <p>(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं</p> | <p>1. The lessee's right to recoup short-workings is always related to :</p> <p>(A) First two years</p> <p>(B) Subsequent three years</p> <p>(C) Terms of agreement</p> <p>(D) None of the above</p> |
| <p>2. भू-स्वामी द्वारा अर्जित किया गया अधिकार शुल्क निम्नलिखित में क्रेडिट किया जाता है :</p> <p>(A) लाभ-हानि खाता</p> <p>(B) प्राप्त अधिकार शुल्क खाता</p> <p>(C) पट्टेदार का खाता</p> <p>(D) उप-पट्टेदार का खाता</p> | <p>2. Royalty earned by landlord is credited to :</p> <p>(A) P & L A/c</p> <p>(B) Royalty Receivable A/c</p> <p>(C) Lessee's A/c</p> <p>(D) Sub-lessee's A/c</p> |
| <p>3. पट्टेदार की पुस्तकों में न्यूनतम किराया खाता तब खोला जा सकता है जब अधिकार शुल्क :</p> <p>(A) न्यूनतम किराये से अधिक हो</p> <p>(B) न्यूनतम किराये से कम हो</p> <p>(C) न्यूनतम किराये के बराबर हो</p> <p>(D) लघु-कार्य राशि के बराबर हो</p> | <p>3. Minimum Rent A/c can be opened in the books of lessee if royalty is :</p> <p>(A) More than minimum rent</p> <p>(B) Less than minimum rent</p> <p>(C) Equal to minimum rent</p> <p>(D) Equal to shortworking</p> |

4. किराया-क्रय की दशा में, सम्पत्ति खाता को निम्नलिखित से डेबिट किया जाता है :
- (A) किराया-क्रय मूल्य
(B) विक्रेता का लागत मूल्य
(C) नकद मूल्य
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
4. In case of hire-purchase, Asset Account is debited with :
- (A) Hire-purchase price
(B) Cost price of seller
(C) Cash price
(D) None of the above
5. किराया-क्रय पद्धति में, किराया-क्रेता अपने खाते निम्नलिखित विधि से रख सकता है :
- (A) सम्पत्ति उपार्जन विधि
(B) सम्पूर्ण नकद मूल्य विधि
(C) दोनों में से कोई भी विधि
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
5. Under hire-purchase system, hire buyer can maintain his accounts under :
- (A) Asset Accrual method
(B) Total cash price method
(C) Any of the two methods
(D) None of the above
6. एक मशीन का नकद मूल्य ₹ 9,000 तथा उसका किराया क्रय मूल्य ₹ 10,000 है, जो बराबर चार वार्षिक किश्तों में देय है। प्रत्येक किश्त में ब्याज इस प्रकार शामिल होगा :
- (A) ₹ 400, ₹ 300, ₹ 200, ₹ 100
(B) ₹ 250, ₹ 250, ₹ 250, ₹ 250
(C) ₹ 100, ₹ 200, ₹ 300, ₹ 400
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
6. Cash price of a machine is ₹ 9,000 and its hire-purchase price is ₹ 10,000 payable in four annual equal instalments. Each instalment has interest in it :
- (A) ₹ 400, ₹ 300, ₹ 200, ₹ 100
(B) ₹ 250, ₹ 250, ₹ 250, ₹ 250
(C) ₹ 100, ₹ 200, ₹ 300, ₹ 400
(D) None of the above

- | | |
|---|---|
| <p>7. किश्त भुगतान पद्धति में क्रेता की स्थिति होती है :</p> <p>(A) निक्षेपी की</p> <p>(B) निक्षेपगृहीता की</p> <p>(C) स्वामी की</p> <p>(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं</p> | <p>7. The position of the buyer under instalment payment system is that of a :</p> <p>(A) Bailor</p> <p>(B) Bailee</p> <p>(C) Owner</p> <p>(D) None of the above</p> |
| <p>8. किश्त भुगतान पद्धति में ब्याज खाते का शेष निम्नलिखित को हस्तांतरित किया जाता है :</p> <p>(A) व्यापारिक खाता</p> <p>(B) लाभ-हानि खाता</p> <p>(C) चिह्न</p> <p>(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं</p> | <p>8. Under the instalment payment system, balance of Interest A/c is transferred to :</p> <p>(A) Trading A/c</p> <p>(B) P & L A/c</p> <p>(C) Balance Sheet</p> <p>(D) None of the above</p> |
| <p>9. एक विदेशी शाखा की आगम मदों को निम्नलिखित पर परिवर्तित किया जाता है :</p> <p>(A) प्रारम्भिक विनिमय दर</p> <p>(B) अन्तिम विनिमय दर</p> <p>(C) औसत विनिमय दर</p> <p>(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं</p> | <p>9. Revenue items of a foreign branch are converted at :</p> <p>(A) Opening rate of exchange</p> <p>(B) Closing rate of exchange</p> <p>(C) Average rate of exchange</p> <p>(D) None of the above</p> |
| <p>10. एक विदेशी शाखा की चालू सम्पत्तियों और चालू दायित्वों को निम्नलिखित पर परिवर्तित किया जाता है :</p> <p>(A) प्रारम्भिक विनिमय दर</p> <p>(B) अन्तिम विनिमय दर</p> <p>(C) औसत विनिमय दर</p> <p>(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं</p> | <p>10. Current assets and current liabilities of a foreign branch are converted at :</p> <p>(A) Opening rate of exchange</p> <p>(B) Closing rate of exchange</p> <p>(C) Average rate of exchange</p> <p>(D) None of the above</p> |

- | | |
|---|---|
| <p>11. अन्तिम स्कन्ध की राशि ज्ञात करने के लिए कौन-सा खाता बनाया जाता है ?</p> <p>(A) प्रधान कार्यालय खाता</p> <p>(B) शाखा खाता</p> <p>(C) स्मारक स्कन्ध खाता</p> <p>(D) उपर्युक्त सभी</p> | <p>11. Which account is prepared to find out the amount of closing stock ?</p> <p>(A) Head Office Account</p> <p>(B) Branch Account</p> <p>(C) Memorandum Stock Account</p> <p>(D) All of the above</p> |
| <p>12. शाखा समायोजन खाता की प्रकृति होती है :</p> <p>(A) वास्तविक खाता</p> <p>(B) नाममात्र का खाता</p> <p>(C) व्यक्तिगत खाता</p> <p>(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं</p> | <p>12. Branch Adjustment Account is in the nature of :</p> <p>(A) Real Account</p> <p>(B) Nominal Account</p> <p>(C) Personal Account</p> <p>(D) None of the above</p> |
| <p>13. स्थिति विवरण की सूची F इससे सम्बन्धित है :</p> <p>(A) पूर्णतः सुरक्षित लेनदार</p> <p>(B) पूर्वाधिकारी लेनदार</p> <p>(C) पुस्तक ऋण</p> <p>(D) विनिमय विपत्र</p> | <p>13. List F of Statement of Affairs is related to :</p> <p>(A) Fully secured creditors</p> <p>(B) Preferential creditors</p> <p>(C) Book debts</p> <p>(D) Bills of exchange</p> |
| <p>14. प्रेसीडेन्सी टाउन्स दिवाला अधिनियम के अन्तर्गत एक लिपिक को देय वेतन इस सीमा तक पूर्वाधिकारी दायित्व होता है :</p> <p>(A) ₹ 20</p> <p>(B) ₹ 100</p> <p>(C) ₹ 300</p> <p>(D) ₹ 500</p> | <p>14. Under Presidency Towns Insolvency Act, the salary due to a clerk is a preferential liability to the extent of :</p> <p>(A) ₹ 20</p> <p>(B) ₹ 100</p> <p>(C) ₹ 300</p> <p>(D) ₹ 500</p> |

- | | |
|---|---|
| <p>15. मैनेजर को देय वेतन निम्नलिखित लेनदारों में शामिल किया जाता है :</p> <p>(A) असुरक्षित लेनदार</p> <p>(B) पूर्णतः सुरक्षित लेनदार</p> <p>(C) अंशतः सुरक्षित लेनदार</p> <p>(D) पूर्वाधिकारी लेनदार</p> | <p>15. Salary due to the manager is to be included in the following creditors :</p> <p>(A) Unsecured creditors</p> <p>(B) Fully secured creditors</p> <p>(C) Partly secured creditors</p> <p>(D) Preferential creditors</p> |
| <p>16. प्रान्तीय दिवाला अधिनियम के अन्तर्गत, भू-स्वामी को देय किराया पूर्वाधिकारी होता है :</p> <p>(A) एक माह का</p> <p>(B) तीन माह का</p> <p>(C) चार माह का</p> <p>(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं</p> | <p>16. Under Provincial Insolvency Act, rent due to landlord is preferential :</p> <p>(A) For one month</p> <p>(B) For three months</p> <p>(C) For four months</p> <p>(D) None of the above</p> |
| <p>17. समापन की लागत को इसमें दर्शाया जाता है :</p> <p>(A) स्थिति विवरण</p> <p>(B) कमी खाता</p> <p>(C) दोनों (A) तथा (B)</p> <p>(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं</p> | <p>17. Cost of winding up is shown in :</p> <p>(A) Statement of Affairs</p> <p>(B) Deficiency Account</p> <p>(C) Both (A) and (B)</p> <p>(D) None of the above</p> |

- | | |
|--|---|
| <p>18. सूची-C निम्नलिखित के बारे में विवरण देती है :</p> <p>(A) चालू सम्पत्तियाँ</p> <p>(B) स्थायी सम्पत्तियाँ</p> <p>(C) पूर्णतः सुरक्षित लेनदार</p> <p>(D) अंशतः सुरक्षित लेनदार</p> | <p>18. List-C gives details regarding the :</p> <p>(A) Current Assets</p> <p>(B) Fixed Assets</p> <p>(C) Fully secured creditors</p> <p>(D) Partly secured creditors</p> |
| <p>19. कमी की राशि इस सूची में दी जाती है :</p> <p>(A) सूची-A</p> <p>(B) सूची-B</p> <p>(C) सूची-F</p> <p>(D) सूची-H</p> | <p>19. The amount of deficiency is given under :</p> <p>(A) List-A</p> <p>(B) List-B</p> <p>(C) List-F</p> <p>(D) List-H</p> |
| <p>20. जहाज़ की बॉडी या फ्रेम को कहते हैं :</p> <p>(A) जलयान</p> <p>(B) स्टीमर</p> <p>(C) जहाज का पेटा</p> <p>(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं</p> | <p>20. Body or frame of a ship is called :</p> <p>(A) Vessel</p> <p>(B) Steamer</p> <p>(C) Hull</p> <p>(D) None of the above</p> |
| <p>21. लदान व उतराई के व्यय कुलियों को दी गई मजदूरी होती है :</p> <p>(A) माल को चढ़ाने के लिए</p> <p>(B) माल को उतारने के लिए</p> <p>(C) माल को चढ़ाने और उतारने के लिए</p> <p>(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं</p> | <p>21. Stevedoring charges are the wages paid to the coolies :</p> <p>(A) For loading of goods</p> <p>(B) For unloading of goods</p> <p>(C) For loading and unloading of goods</p> <p>(D) None of the above</p> |

22. जहाजी कम्पनी द्वारा भाड़ा बीमा पॉलिसी ली जाती है :
- (A) माल के नष्ट होने की जोखिम से बचाव के लिए
- (B) जहाज के सुरक्षित पहुँचने को सुनिश्चित करने के लिए
- (C) भाड़ा वसूल न होने की जोखिम से बचने के लिए
- (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
22. Freight Insurance Policy is taken by the shipping company :
- (A) to avoid the risk of goods being damaged
- (B) to assure the safe arrival of the ship
- (C) to avoid the risk of freight not being recovered
- (D) None of the above
23. समुद्री यात्रा खाता के सन्दर्भ में यह आय की एक मद नहीं है :
- (A) यात्री किराया
- (B) माल भाड़ा
- (C) प्राइमेज
- (D) एड्रेस कमीशन
23. It is not an item of income with reference to a Voyage Account :
- (A) Passenger Money
- (B) Freight
- (C) Primage
- (D) Address Commission
24. एक जहाज में सैलून की आय :
- (A) समुद्री यात्रा खाता में क्रेडिट की जाती है।
- (B) लाभ-हानि खाता में क्रेडिट की जाती है।
- (C) कहीं क्रेडिट नहीं की जाती है।
- (D) भाड़े में जोड़ी जाती है।
24. Income from saloon in a ship is :
- (A) Credited in the Voyage Account.
- (B) Credited in the P & L Account.
- (C) Credited nowhere.
- (D) Added to freight.

25. अपूर्ण यात्रा से सम्बन्धित व्ययों को माना जाता है :
- (A) पूर्वदत्त व्यय
(B) अदत्त व्यय
(C) दोनों (A) व (B)
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
25. Expenses related to the incomplete journey are treated as :
- (A) Prepaid expenses
(B) Outstanding expenses
(C) Both (A) and (B)
(D) None of the above
26. दोहरा लेखा प्रणाली से आशय है :
- (A) पुस्तकों के दो अलग-अलग समूहों में प्रविष्टि
(B) पुस्तकों के एक समूह में दो प्रविष्टियाँ
(C) दो वास्तविक खातों में प्रविष्टि
(D) एक व्यवहार के दो पक्षों की प्रविष्टि
26. Double Entry System means :
- (A) Entry in two different sets of books
(B) Two entries in one set of books
(C) Entry in two real accounts
(D) Entry of two aspects of one transaction
27. आहरण पर ब्याज :
- (A) व्ययों को बढ़ाता है और दायित्व को कम करता है।
(B) दायित्व को बढ़ाता है और पूँजी को कम करता है।
(C) सम्पत्तियों को बढ़ाता है और पूँजी को कम करता है।
(D) आगम को बढ़ाता है और पूँजी को कम करता है।
27. Interest on drawings :
- (A) Increases expenses and decreases liability.
(B) Increases liability and decreases capital.
(C) Increases assets and decreases capital.
(D) Increases revenue and decreases capital.

28. ख्याति खाता निम्नलिखित का उदाहरण है :

- (A) वास्तविक मूर्त खाता
- (B) वास्तविक अमूर्त खाता
- (C) व्यक्तिगत खाता
- (D) नाममात्र का खाता

29. कोई व्यय इसलिए आयगत व्यय कहलाता है, क्योंकि :

- (A) रकम बहुत छोटी है।
- (B) रकम का भुगतान किश्तों में किया जाता है।
- (C) इसका उद्देश्य चालू अवधि में लाभ प्राप्त करना है।
- (D) इसका उद्देश्य भविष्य की अवधि में लाभ प्राप्त करना है।

30. अंशों के निर्गमन पर दी गई कटौती निम्नलिखित का उदाहरण है :

- (A) आयगत व्यय
- (B) पूँजीगत व्यय
- (C) आस्थगित आयगत व्यय
- (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

28. Goodwill Account is an example of :

- (A) Real Tangible Account
- (B) Real Intangible Account
- (C) Personal Account
- (D) Nominal Account

29. An expenditure is a revenue expenditure because :

- (A) The amount is very small.
- (B) The amount is paid in instalments.
- (C) It is intended to benefit in the current period.
- (D) It is intended to benefit in the future period.

30. Discount allowed on issue of shares is an example of :

- (A) Revenue Expenditure
- (B) Capital Expenditure
- (C) Deferred Revenue Expenditure
- (D) None of the above

31. किसी आगम व्यय का पूँजीगत व्यय के रूप में गलत व्यवहार करने का परिणाम होगा :
- (A) दायित्वों में वृद्धि
(B) हानियों में वृद्धि
(C) लाभों में कमी या हानियों में वृद्धि
(D) लाभों में वृद्धि या हानियों में कमी
32. आहरण पर ब्याज है :
- (A) व्यवसाय के लिए एक व्यय
(B) व्यवसाय के लिए एक आय
(C) व्यवसाय के लिए एक सम्पत्ति
(D) व्यवसाय के लिए एक दायित्व
33. चिट्ठे की तिथि पर अनुपार्जित या असमाप्त आय को निम्नलिखित की तरह दिखाया जाता है :
- (A) एक व्यय
(B) एक आगम
(C) एक सम्पत्ति
(D) एक दायित्व
31. Incorrect treatment of revenue expenditure as capital expenditure results in :
- (A) Increase in liabilities
(B) Increase in losses
(C) Decrease in profits or increase in losses
(D) Increase in profits or decrease in losses
32. Interest on drawings is :
- (A) An expenditure for the business
(B) An income for the business
(C) An asset for the business
(D) A liability for the business
33. Unearned or unexpired income as on the date of Balance Sheet is shown as :
- (A) An expenditure
(B) A revenue
(C) An asset
(D) A liability

34. एक नये उत्पाद को प्रारम्भ करने में किया गया भारी व्यय है एक :
- (A) आगम व्यय
(B) पूँजीगत व्यय
(C) आस्थगित व्यय
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
34. Heavy expenditure to launch a new product is a :
- (A) Revenue expenditure
(B) Capital expenditure
(C) Deferred expenditure
(D) None of the above
35. एकल स्वामी द्वारा अपनी व्यावसायिक आय पर दिए गए आयकर को :
- (A) व्यापारिक खाते में डेबिट करना चाहिए
(B) लाभ-हानि खाते में डेबिट करना चाहिए
(C) पूँजी खाते में डेबिट करना चाहिए
(D) चिट्ठे के सम्पत्ति पक्ष में दिखाना चाहिए
35. Income tax paid by a sole proprietor on his business income should be :
- (A) Debited to Trading Account
(B) Debited to P & L Account
(C) Debited to Capital Account
(D) Shown on assets side of the Balance Sheet
36. टैली लेखांकन की प्रणाली का समर्थन करती है।
- (A) एकल प्रविष्टि
(B) दोहरी प्रविष्टि
(C) कोई प्रविष्टि नहीं
(D) शून्य प्रविष्टि
36. Tally supports system of accounting.
- (A) Single entry
(B) Double entry
(C) No entry
(D) Null entry

37. बैलेन्स शीट पेश होती है जब लेखे टैली में रखे जाते हैं।
- (A) दस्ती
(B) स्वचालित
(C) रिमोट से
(D) बेतरतीब से
37. Balance Sheet is produced when accounts are maintained in Tally.
- (A) manually
(B) automatically
(C) remotely
(D) randomly
38. टैली के गेटवे में बटन दबाने से टैली में कम्पनी इन्फो खुलता है।
- (A) Alt + F3
(B) F11
(C) F5
(D) F6
38. Pressing button in the Gateway of Tally opens company info in Tally.
- (A) Alt + F3
(B) F11
(C) F5
(D) F6
39. को दबाने से लेखांकन लक्षण खुलते हैं।
- (A) Alt + F3
(B) F11
(C) F5
(D) F6
39. Pressing key opens accounting features.
- (A) Alt + F3
(B) F11
(C) F5
(D) F6
40. पे-रोल, बजटिंग और रूपरेखा प्रबन्ध टैली में मीनू द्वारा योग्य होते हैं।
- (A) लेखांकन लक्षण
(B) इन्वेन्ट्री लक्षण
(C) वैधानिक और कराधान
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
40. Payroll, budgeting and secnario management may be enabled through menu in Tally.
- (A) Accounting feature
(B) Inventory feature
(C) Statutory and Taxation
(D) None of the above

- | | |
|--|--|
| <p>41. लेखांकन समूहों, लेजरो, बजट और रूपरेखा टैली में के अधीन उपलब्ध होते हैं।</p> <p>(A) Payroll info</p> <p>(B) Inventory info</p> <p>(C) Accounts info</p> <p>(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं</p> | <p>41. Accounting Groups, Ledgers, Budget and Scenario are available under in Tally.</p> <p>(A) Payroll info</p> <p>(B) Inventory info</p> <p>(C) Accounts info</p> <p>(D) None of the above</p> |
| <p>42. टैली में कन्ट्रा वाउचर निर्मित करने का शॉर्टकट है।</p> <p>(A) F6</p> <p>(B) F5</p> <p>(C) F4</p> <p>(D) F2</p> | <p>42. is the shortcut to create contra voucher in Tally.</p> <p>(A) F6</p> <p>(B) F5</p> <p>(C) F4</p> <p>(D) F2</p> |
| <p>43. टैली में भुगतान वाउचर निर्मित करने का शॉर्टकट है।</p> <p>(A) F6</p> <p>(B) F5</p> <p>(C) F4</p> <p>(D) F2</p> | <p>43. is the shortcut to create payment voucher in Tally.</p> <p>(A) F6</p> <p>(B) F5</p> <p>(C) F4</p> <p>(D) F2</p> |

44. टैली में रसीद वाउचर निर्मित करने का शॉर्टकट है।
- (A) F6
(B) F5
(C) F4
(D) F2
45. टैली में एक कम्पनी रूपायित करने का शॉर्टकट है।
- (A) F6
(B) F5
(C) F4
(D) F12
46. डेबिट और क्रेडिट कॉलम में प्रत्येक व्यवहार की प्रविष्टि लेखांकन में प्रविष्टि कहलाती है।
- (A) एकल
(B) दोहरी
(C) त्रिगुण
(D) चार गुणा
47. उत्पादन प्रयोजन के लिए संरक्षित रखा स्टॉक कहलाता है।
- (A) लेजर
(B) पे-रोल
(C) तलपट
(D) इन्वेन्ट्री
44. is the shortcut to create receipt voucher in Tally.
- (A) F6
(B) F5
(C) F4
(D) F2
45. is the shortcut to configure a company in Tally.
- (A) F6
(B) F5
(C) F4
(D) F12
46. Entering each transaction in debit and credit columns is called entry system in Accounting.
- (A) Single
(B) Double
(C) Triple
(D) Quadruple
47. Stock maintained for production purpose is called
- (A) Ledger
(B) Payroll
(C) Trial Balance
(D) Inventory

- | | |
|---|--|
| <p>48. नामित पूँजी से आशय है :</p> <p>(A) अनुप्रयुक्त पूँजी</p> <p>(B) निर्गमित पूँजी</p> <p>(C) अधिकृत पूँजी</p> <p>(D) संचित पूँजी</p> | <p>48. Nominal capital means :</p> <p>(A) Applied Capital</p> <p>(B) Issued Capital</p> <p>(C) Authorised Capital</p> <p>(D) Reserved Capital</p> |
| <p>49. सम्पत्तियों और दायित्वों का एक कथन क्या है ?</p> <p>(A) आर्थिक चिह्न</p> <p>(B) जर्नल</p> <p>(C) लेजर</p> <p>(D) तलपट</p> | <p>49. Which is a statement of assets and liabilities ?</p> <p>(A) Balance Sheet</p> <p>(B) Journal</p> <p>(C) Ledger</p> <p>(D) Trial Balance</p> |
| <p>50. टैली में कितने द्वितीयक समूह होते हैं ?</p> <p>(A) 15</p> <p>(B) 13</p> <p>(C) 28</p> <p>(D) 3</p> | <p>50. How many secondary groups are there in Tally ?</p> <p>(A) 15</p> <p>(B) 13</p> <p>(C) 28</p> <p>(D) 3</p> |
| <p>51. एक क्रेडिट नोट द्वारा को भेजा जाता है।</p> <p>(A) विक्रेता, खरीदार</p> <p>(B) खरीदार, विक्रेता</p> <p>(C) ग्राहक, विक्रेता</p> <p>(D) लेनदार, विक्रेता</p> | <p>51. A credit note is sent by to</p> <p>(A) Seller, Buyer</p> <p>(B) Buyer, Seller</p> <p>(C) Customer, Seller</p> <p>(D) Creditor, Seller</p> |

52. टैली गेटवे से तलपट देखने के लिए कौन-सा विकल्प प्रयुक्त होता है ?
- (A) Gateway of Tally > Report > Trial Balance
(B) Gateway of Tally > Trial Balance
(C) Gateway of Tally > Report > Display > Trial Balance
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
53. टैली पैकज द्वारा विकसित होता है।
- (A) पेयूट्रोनिक्स
(B) टैली सॉल्यूशन
(C) कोरल सॉफ्टवेयर
(D) वेदिका सॉफ्टवेयर
54. टैली को पहली बार शुरू करने के बाद कौन-सा मीनू दिखाई देता है ?
- (A) Gateway of Tally
(B) Company Info
(C) Display
(D) उपर्युक्त में कोई नहीं
55. निर्मित कम्पनी में परिवर्तन करने के लिए टैली में कौन-सा विकल्प प्रयुक्त होता है ?
- (A) Select Company
(B) Shut Company
(C) Alter
(D) Connect
52. Which option is used to view Trial Balance from Gateway of Tally ?
- (A) Gateway of tally > Report > Trial Balance
(B) Gateway of Tally > Trial Balance
(C) Gateway of Tally > Report > Display > Trial Balance
(D) None of the above
53. Tally Package is developed by
- (A) Peutronics
(B) Tally Solutions
(C) Corel Software
(D) Vedika Software
54. Which menu appears after starting Tally for the first time ?
- (A) Gateway of Tally
(B) Company Info
(C) Display
(D) None of the above
55. Which option is used in Tally to make changes in created company ?
- (A) Select Company
(B) Shut Company
(C) Alter
(D) Connect

- | | |
|--|---|
| <p>56. कम्पनी सूचना मीनू से कौन-सा विकल्प टैली में एक नई कम्पनी बनाने के लिए चुनना होता है ?</p> <p>(A) Company create</p> <p>(B) Create Company</p> <p>(C) Create New Company</p> <p>(D) Make Company</p> | <p>56. Which option from company info menu is selected to create a new company in Tally ?</p> <p>(A) Company create</p> <p>(B) Create Company</p> <p>(C) Create New Company</p> <p>(D) Make Company</p> |
| <p>57. कम्पनी डाटा को पेनड्राइव या CD में कॉपी करने के लिए कौन-सा विकल्प प्रयुक्त होता है ?</p> <p>(A) Backup</p> <p>(B) Restore</p> <p>(C) Copy data</p> <p>(D) Split company data</p> | <p>57. Which option is used to copy company data into pendrive or CD ?</p> <p>(A) Backup</p> <p>(B) Restore</p> <p>(C) Copy data</p> <p>(D) Split company data</p> |
| <p>58. कौन-सा विकल्प टैली में निर्मित कम्पनी खोलने में प्रयुक्त होता है ?</p> <p>(A) Create Company</p> <p>(B) Open Company</p> <p>(C) Select Company</p> <p>(D) Shut Company</p> | <p>58. Which option is used to open company created in Tally ?</p> <p>(A) Create Company</p> <p>(B) Open Company</p> <p>(C) Select Company</p> <p>(D) Shut Company</p> |

59. कौन-सा विकल्प टैली में खोली हुई कम्पनी बन्द करने में प्रयुक्त होगा ?
- (A) Connect Company
(B) Shut Company
(C) Create Company
(D) Select Company
60. हम कम्पनी सूचना से बदल सकते हैं।
- (A) A company info > Backup
(B) Company info > Alter
(C) Company Info > Split Company Data
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
61. कम्पनी रीस्टोर विकल्प में उपलब्ध है।
- (A) Company Features
(B) Company Information
(C) Configuration
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
62. टैली की होम स्क्रीन के रूप में भी जानी जाती है।
- (A) Menu Bar
(B) Gateway of Tally
(C) Accounts info
(D) Buttom toolbar
59. Which option is used in Tally to close opened company ?
- (A) Connect Company
(B) Shut Company
(C) Create Company
(D) Select Company
60. We can change the company information from
- (A) A company info > Backup
(B) Company info > Alter
(C) Company Info > Split Company Data
(D) None of the above
61. Company Restore option is available in
- (A) Company Features
(B) Company Information
(C) Configuration
(D) None of the above
62. The home screen of Tally is also known as
- (A) Menu Bar
(B) Gateway of Tally
(C) Accounts info
(D) Buttom tool bar

63. एक कम्पनी केवल में मिटाई जा सकती है।
- (A) Display
(B) Alter
(C) Delete
(D) Create
64. F12 के रूप में जाना जाता है।
- (A) Company Features
(B) Company Configuration
(C) Accounting Features
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
65. टैली में कितने समूह पूर्व-परिभाषित हैं ?
- (A) 28
(B) 30
(C) 15
(D) 19
66. 1 अप्रैल, 2009 तक लेखा मानक बोर्ड द्वारा निर्गमित लेखा मानकों की संख्या है :
- (A) 15
(B) 29
(C) 32
(D) 41
63. A company can be deleted only in :
- (A) Display
(B) Alter
(C) Delete
(D) Create
64. F12 is known as
- (A) Company Features
(B) Company Configuration
(C) Accounting Features
(D) None of the above
65. How many groups are predefined in Tally ?
- (A) 28
(B) 30
(C) 15
(D) 19
66. The number of accounting standards issued by the Accounting Standards Board till 1st April, 2009 is :
- (A) 15
(B) 29
(C) 32
(D) 41

67. पुस्तकालय की दोहरा लेखा प्रणाली में, प्रत्येक व्यावसायिक व्यवहार प्रभावित करता है :
- (A) एक खाते को
(B) दो खातों को
(C) एक ही खाते के डेबिट और क्रेडिट पक्ष को
(D) उपर्युक्त सभी
68. देय मजदूरी है :
- (A) वास्तविक खाता
(B) व्यक्तिगत खाता
(C) नाममात्र का खाता
(D) उपर्युक्त सभी
69. एक सम्पत्ति का होता है :
- (A) डेबिट शेष
(B) क्रेडिट शेष
(C) कभी डेबिट शेष और कभी क्रेडिट शेष
(D) प्रारम्भ में डेबिट शेष और अन्त में क्रेडिट शेष
70. शुद्ध हानि फर्म की/का होती है।
- (A) एक सम्पत्ति
(B) एक दायित्व
(C) एक आय
(D) एक असाधारण व्यय
67. In double entry system of book-keeping, every business transaction affects :
- (A) One account
(B) Two accounts
(C) Debit and credit side of the same account
(D) All of the above
68. Wages owing is :
- (A) Real Account
(B) Personal Account
(C) Nominal Account
(D) All of the above
69. An asset has :
- (A) Debit balance
(B) Credit balance
(C) Sometimes debit and sometimes credit balance
(D) Debit balance in the beginning and credit balance at the end
70. Net loss is of the firm.
- (A) An asset
(B) A liability
(C) An income
(D) An extraordinary expenditure

71. विदेशी शाखा की दशा में, स्थायी सम्पत्तियों को परिवर्तित किया जाता है :
- (A) औसत दर पर
(B) अन्तिम दर पर
(C) प्रारम्भिक दर पर
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
72. ख्याति को दिखाया जाता है :
- (A) सम्पत्तियों में
(B) दायित्वों में
(C) व्यापार खाता में
(D) लाभ-हानि खाते में
73. ERP का पूर्ण रूप क्या है ?
- (A) Enterprise Resource Planning
(B) Economic Resource Planning
(C) Efficient Resource Planning
(D) Economic Resource Processing
74. टैली में चालू तिथि से क्या तात्पर्य है ?
- (A) कैलेंडर तिथि
(B) अंतिम वाउचर तिथि
(C) अंतिम कार्य किया तिथि
(D) सिस्टम तिथि
75. एकीकरण का मुख्य उद्देश्य है :
- (A) वितरण से सुगमता लाना
(B) प्रतिस्पर्धा का लोप करना
(C) व्ययों में मितव्ययिता लाना
(D) उपर्युक्त सभी
71. In case of foreign branch, fixed assets are converted at :
- (A) Average rate
(B) Closing rate
(C) Opening rate
(D) None of the above
72. Goodwill is shown in :
- (A) Assets
(B) Liabilities
(C) Trading Account
(D) Profit & Loss Account
73. What is the full form of ERP ?
- (A) Enterprise Resource Planning
(B) Economic Resource Planning
(C) Efficient Resource Planning
(D) Economic Resource Processing
74. What is meant by current date in Tally ?
- (A) Calendar date
(B) Last vouher date
(C) Last worked date
(D) System date
75. The main object of amalgamation is :
- (A) To facilitate distribution
(B) To stop competition
(C) To minimise the expenses
(D) All of the above

76. चालू व्यवसाय की अवधारणा के अनुसार एक व्यवसाय का जीवन माना जाता है :
- (A) एक अल्प जीवन
(B) एक निश्चित जीवन
(C) एक दीर्घ जीवन
(D) एक अनिश्चित जीवन
76. According to the concept of going concern, a business is presumed to have :
- (A) A limited life
(B) A definite life
(C) A long life
(D) An indefinite life
77. लेखा मानक-6 “ह्रास लेखांकन” निम्नलिखित पर लागू होता है :
- (A) प्लांट और मशीनरी
(B) ख्याति
(C) पशुधन
(D) वन सम्पदा
77. AS-6 “Depreciation Accounting” is applicable to :
- (A) Plant and Machinery
(B) Goodwill
(C) Livestock
(D) Forests
78. लेखा मानक-26 “अमूर्त सम्पत्तियों” के अनुसार, आन्तरिक रूप से सृजित ख्याति का लेखा :
- (A) नहीं किया जाता है।
(B) सृजित करने की लागत पर किया जाता है।
(C) विशेषज्ञों द्वारा किये गये मूल्यांकन पर किया जाता है।
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
78. As per AS-26 “Intangible Assets”, internally generated goodwill is :
- (A) Not recorded
(B) Record at the cost of generating
(C) Recorded at the valuation done by the experts
(D) None of the above

79. लेखा मानक-13 “विनियोगों के लिए लेखांकन” के अनुसार चालू विनियोगों को निम्नलिखित पर दर्शाया जाता है :
- (A) विनियोगों की लागत
(B) बाजार मूल्य
(C) लागत या उचित मूल्य, जो दोनों में कम हो
(D) लागत या उचित मूल्य, जो दोनों में अधिक हो
80. लेखांकन का मुख्य कार्य है :
- (A) व्यावसायिक व्यवहारों का अभिलेखन करना
(B) व्यवसायी के गुणों का अभिलेखन करना
(C) व्यावसायिक व्यवहारों का अभिलेखन एवं वर्गीकरण करना
(D) कार्यवाही के लिए सूचनात्मक आधार प्रदान करना
81. पूँजी को एक दायित्व के रूप में मानना इस लेखांकन मान्यता का अनुसरण करना है :
- (A) पृथक् अस्तित्व
(B) आगम वसूली
(C) पूर्ण प्रकटीकरण
(D) ऐतिहासिक लागत सिद्धान्त
79. As per AS-13 “Accounting for Investments” the current investments are shown at :
- (A) Cost of investments
(B) Market value
(C) Cost or fair value, whichever is less
(D) Cost or fair value, whichever is higher
80. The prime function of accounting is to :
- (A) Record business transactions
(B) Record qualities of the businessman
(C) Record and classify business transactions
(D) Provide the informational basis for action
81. Treatment of capital as a liability observes the accounting assumption of :
- (A) Separate entity
(B) Revenue realization
(C) Full disclosure
(D) Historic cost principle

82. दोहरा लेखा प्रणाली का जन्म हुआ था :

- (A) भारत में
- (B) अमेरिका में
- (C) इटली में
- (D) रूस में

83. डेबिट से संकेत मिलता है :

- (A) सम्पत्ति खातों में वृद्धि
- (B) पूँजी खातों में कमी
- (C) दायित्व सम्बन्धी खातों में कमी
- (D) उपर्युक्त सभी

84. क्रेडिट से संकेत मिलता है :

- (A) सम्पत्ति खातों में वृद्धि
- (B) पूँजी खातों में कमी
- (C) दायित्व सम्बन्धी खातों में वृद्धि
- (D) उपर्युक्त सभी

85. वास्तविक खाते सम्बन्धित हैं :

- (A) व्यय से
- (B) आय से
- (C) सम्पत्तियों से
- (D) दायित्व से

82. Double Entry System originated in :

- (A) India
- (B) America
- (C) Italy
- (D) Russia

83. Debit signifies :

- (A) Increase in assets accounts
- (B) Decrease in capital accounts
- (C) Decrease in liabilities accounts
- (D) All of the above

84. Credit signifies :

- (A) Increase in assets accounts
- (B) Decrease in capital accounts
- (C) Increase in liabilities accounts
- (D) All of the above

85. Real accounts relate is to :

- (A) Expenses
- (B) Incomes
- (C) Assets
- (D) Liabilities

- | | |
|--|--|
| <p>86. नाममात्र के खाते सम्बन्धित हैं :</p> <p>(A) व्यय तथा आय से</p> <p>(B) सम्पत्तियों तथा दायित्वों से</p> <p>(C) देनदारों तथा लेनदारों से</p> <p>(D) उपर्युक्त सभी से</p> | <p>86. Nominal accounts relate to :</p> <p>(A) Expenses and Incomes</p> <p>(B) Assets and Liabilities</p> <p>(C) Debtors and Creditors</p> <p>(D) All of the above</p> |
| <p>87. पूर्वदत्त व्यय होता है :</p> <p>(A) वास्तविक खाता</p> <p>(B) स्वाभाविक व्यक्तिगत खाता</p> <p>(C) प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्तिगत खाता</p> <p>(D) नाममात्र का खाता</p> | <p>87. Prepaid expenditure is :</p> <p>(A) Real Account</p> <p>(B) Natural Personal Account</p> <p>(C) Representative Personal Account</p> <p>(D) Nominal Account</p> |
| <p>88. डेबिट प्रविष्टियों से निम्नलिखित का शेष बढ़ जायेगा :</p> <p>(A) क्रय खाता</p> <p>(B) प्लांट व मशीनरी खाता</p> <p>(C) दोनों (A) और (B)</p> <p>(D) विक्रय खाता</p> | <p>88. Debit entries will increase the balance of :</p> <p>(A) Purchases Account</p> <p>(B) Plant and Machinery Account</p> <p>(C) Both (A) and (B)</p> <p>(D) Sales Account</p> |
| <p>89. स्वामी द्वारा किया गया आहरण :</p> <p>(A) दायित्वों को घटायेगा और सम्पत्तियों को बढ़ायेगा</p> <p>(B) सम्पत्तियों को घटायेगा और दायित्वों को बढ़ायेगा</p> <p>(C) सम्पत्तियों और स्वामी के स्वामित्व दोनों को घटायेगा</p> <p>(D) स्वामी के स्वामित्व को घटायेगा और दायित्वों को बढ़ायेगा</p> | <p>89. Withdrawal by proprietor would :</p> <p>(A) Reduce liabilities and increase assets</p> <p>(B) Reduce assets and increase liabilities</p> <p>(C) Reduce both the assets and owner's equity</p> <p>(D) Reduce owner's equity and increase liabilities</p> |

90. क्रेडिट प्रविष्टियों से निम्नलिखित का शेष बढ़ जायेगा :
- (A) ख्याति खाता
(B) क्रय खाता
(C) विक्रय वापसी खाता
(D) बैंक अधिविकर्ष
90. Credit entries will increase the balance of :
- (A) Goodwill Account
(B) Purchases Account
(C) Sales Returns Account
(D) Bank Overdraft
91. रोकड़ खाते का शेष इंगित करता है :
- (A) अवधि की शुद्ध हानि
(B) अवधि का शुद्ध लाभ
(C) शुद्ध हस्तस्थ रोकड़
(D) व्यवसाय की शुद्ध सम्पत्ति
91. The balance of Cash Account indicates :
- (A) Net loss for the period
(B) Net profit for the period
(C) Net cash on hand
(D) Net worth of the business
92. एक तलपट निम्नलिखित की जाँच करता है :
- (A) लेखापालक की ईमानदारी
(B) मालिकों की ईमानदारी
(C) पुस्तकों की अंकगणितीय शुद्धता
(D) उपर्युक्त सभी
92. A Trial Balance checks :
- (A) Honesty of the accountant
(B) Honesty of the owners
(C) Arithmetical accuracy of books
(D) All of the above

93. एक तलपट बनाकर निम्नलिखित को ढूँढा जा सकता है :
- (A) सिद्धान्त की त्रुटियाँ
(B) छूट जाने वाली त्रुटियाँ
(C) क्षतिपूरक त्रुटियाँ
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
94. मोहन को ₹ 445 की बिक्री की खतौनी उसके खाते में ₹ 544 से कर दी गई; इससे निम्नलिखित पर प्रभाव पड़ेगा :
- (A) रोकड़ खाता
(B) विक्रय खाता
(C) मोहन का खाता
(D) उपर्युक्त सभी
95. सिद्धान्त की त्रुटियाँ तब उत्पन्न होती हैं जब :
- (A) किसी व्यवहार को छोड़ दिया गया हो
(B) किसी व्यवहार को लिख दिया गया हो
(C) पुस्तकों में गलत रकमें लिखी गई हों
(D) पूँजीगत एवं आगम की मदों में उचित भेद न किया गया हो
93. The following can be detected by preparing a Trial Balance :
- (A) Errors of principle
(B) Errors of omission
(C) Errors of compensation
(D) None of the above
94. Sales to Mohan ₹ 445 posted to his account as ₹ 544 would affect :
- (A) Cash Account
(B) Sales Account
(C) Mohan's Account
(D) All of the above
95. Errors of principle arise when :
- (A) There is an omission of transaction
(B) There is a commission of transaction
(C) Wrong amounts are entered in the books
(D) Proper distinction is not made between capital and revenue items

96. तलपट में प्रदर्शित उचन्त खाता निम्नलिखित में दर्शाया जाता है :
- (A) खाताबही
(B) व्यापारिक खाता
(C) लाभ-हानि खाता
(D) चिट्ठा
96. Suspense A/c appearing in the Trial Balance is shown in the :
- (A) Ledger
(B) Trading A/c
(C) P & L A/c
(D) Balance Sheet
97. कार्यशील पूँजी है :
- (A) स्वामी की अपनी पूँजी
(B) उधार ली गई पूँजी
(C) बिक्री की रकम
(D) चालू सम्पत्तियाँ — चालू दायित्व
97. Working Capital is :
- (A) Proprietor's own
(B) Borrowed capital
(C) Amount of Capital
(D) Current Assets – Current Liabilities
98. तलपट के बाहर प्रदर्शित रहतिया निम्नलिखित में दर्शाया जाता है :
- (A) व्यापारिक खाता
(B) लाभ-हानि खाता
(C) आर्थिक चिट्ठा
(D) व्यापारिक खाता तथा चिट्ठा
98. Stock appearing outside the Trial Balance is shown in :
- (A) Trading A/c
(B) P & L A/c
(C) Balance Sheet
(D) Trading A/c and Balance Sheet

99. निम्नलिखित में से एक अमूर्त सम्पत्ति का उदाहरण कौन-सा है ?

- (A) भवन
- (B) विनियोग
- (C) अंशों व ऋणपत्रों के निर्गमन पर छूट
- (D) प्रकाशन-अधिकार

100. निम्नलिखित से सम्पत्तियों और स्वामियों के स्वामित्व दोनों में वृद्धि होती है :

- (A) स्वामियों का आहरण
- (B) देनदारों से प्राप्त भुगतान
- (C) लेनदारों को भुगतान
- (D) स्वामियों द्वारा लाई गई पूँजी

99. Which one of the following is an example of an intangible asset ?

- (A) Building
- (B) Investment
- (C) Discount on issue of shares and debentures
- (D) Copyright

100. Both assets and owners' equity would be increased by :

- (A) Proprietor's drawings
- (B) Payment from debtors
- (C) Payment to creditors
- (D) Capital brought in by the proprietors

4. Four alternative answers are mentioned for each question as—A, B, C & D in the booklet. The candidate has to choose the most correct/appropriate answer and mark the same in the OMR Answer-Sheet as per the direction :

Example :

Question :

Q. 1 (A) ☒ (B) (C) (D)

Q. 2 (A) (B) ☒ (C) (D)

Q. 3 (A) ☒ (B) (C) (D)

Illegible answers with cutting and over-writing or half filled circle will be cancelled.

5. Each question carries equal marks. Marks will be awarded according to the number of correct answers you have.
6. All answers are to be given on OMR Answer sheet only. Answers given anywhere other than the place specified in the answer sheet will not be considered valid.
7. Before writing anything on the OMR Answer Sheet, all the instructions given in it should be read carefully.
8. After the completion of the examination candidates should leave the examination hall only after providing their OMR Answer Sheet to the invigilator. Candidate can carry their Question Booklet.
9. There will be no negative marking.
10. Rough work, if any, should be done on the blank pages provided for the purpose in the booklet.
11. To bring and use of log-book, calculator, pager and cellular phone in examination hall is prohibited.
12. In case of any difference found in English and Hindi version of the question, the English version of the question will be held authentic.

Impt. : On opening the question booklet, first check that all the pages of the question booklet are printed properly. If there is any discrepancy in the question Booklet, then after showing it to the invigilator, get another question Booklet of the same series.

4. प्रश्न-पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न के चार सम्भावित उत्तर—A, B, C एवं D हैं। परीक्षार्थी को उन चारों विकल्पों में से एक सबसे सही अथवा सबसे उपयुक्त उत्तर छोटना है। उत्तर को OMR आन्सर-शीट में सम्बन्धित प्रश्न संख्या में निम्न प्रकार भरना है :

उदाहरण :

प्रश्न :

प्रश्न 1 (A) ☒ (B) (C) (D)

प्रश्न 2 (A) (B) ☒ (C) (D)

प्रश्न 3 (A) ☒ (B) (C) (D)

अपठनीय उत्तर या ऐसे उत्तर जिन्हें काटा या बदला गया है, या गोले में आधा भरकर दिया गया, उन्हें निरस्त कर दिया जाएगा।

5. प्रत्येक प्रश्न के अंक समान हैं। आपके जितने उत्तर सही होंगे, उन्हीं के अनुसार अंक प्रदान किये जायेंगे।
6. सभी उत्तर केवल ओ. एम. आर. उत्तर-पत्रक (OMR Answer Sheet) पर ही दिये जाने हैं। उत्तर-पत्रक में निर्धारित स्थान के अलावा अन्यत्र कहीं पर दिया गया उत्तर मान्य नहीं होगा।
7. ओ. एम. आर. उत्तर-पत्रक (OMR Answer Sheet) पर कुछ भी लिखने से पूर्व उसमें दिये गये सभी अनुदेशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लिया जाये।
8. परीक्षा समाप्ति के उपरान्त परीक्षार्थी कक्ष निरीक्षक को अपनी OMR Answer Sheet उपलब्ध कराने के बाद ही परीक्षा कक्ष से प्रस्थान करें। परीक्षार्थी अपने साथ प्रश्न-पुस्तिका ले जा सकते हैं।
9. निगेटिव मार्किंग नहीं है।
10. कोई भी रफ कार्य, प्रश्न-पुस्तिका के अन्त में, रफ-कार्य के लिए दिए खाली पेज पर ही किया जाना चाहिए।
11. परीक्षा-कक्ष में लॉग-बुक, कैलकुलेटर, पेजर तथा सेल्युलर फोन ले जाना तथा उसका उपयोग करना वर्जित है।
12. प्रश्न के हिन्दी एवं अंग्रेजी रूपान्तरण में भिन्नता होने की दशा में प्रश्न का अंग्रेजी रूपान्तरण ही मान्य होगा।

महत्वपूर्ण : प्रश्नपुस्तिका खोलने पर प्रथमतः जाँच कर देख लें कि प्रश्न-पुस्तिका के सभी पृष्ठ भलीभाँति छपे हुए हैं। यदि प्रश्नपुस्तिका में कोई कमी हो, तो कक्षनिरीक्षक को दिखाकर उसी सिरीज की दूसरी प्रश्न-पुस्तिका प्राप्त कर लें।